

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 233] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 1966/अग्रहायण 2, 1888
No. 233] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 1966/AGRAHAYANA 2, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 23rd November 1966

G.S.R. 1810.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Jute string cuttings falling under sub-item (iii) of Item No. 2 of the Second Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) when exported from so much of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule as is in excess of the duty leviable at the rate of 20 per cent *ad valorem*:

Provided that the Assistant Collector of Customs is satisfied that the Jute string cuttings are useless for any purpose to which Jute rope, twist, twine, yarn or string is ordinarily put.

[No. 205/F. No. 6/53/66-Cus.I]

D. P. ANAND, Jt. Secy.

(885)

